

Psa

Chapter 99

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1
יְהוָה יִרְגֵּנוּ מְלֶכֶךָ יִרְגֵּנוּ עַמִּים יֵשֶׁב כְּרוּבִים תִּנְנוּט הָאָרֶץ:
यहोवा ईरुगेनु मेलकेके ईरुगेनु एमिम ईशेब करूबों-पर तननुट हाअरैतः
H3068 H7264 H3427 H3742 H5120 H0776

यहोवा राजा है। सो हे राष्ट्र, भय से काँप उठो। परमेश्वर राजा के रूप में करूब दूतों पर विराजता है। सो हे विश्व भय से काँप उठो।

2
יְהוָה בְּצִיּוֹן גְּדוֹלָה וְרָם וְהוּא עַל-כָּל-הָעַמִּים:
यहोवा बेत्सियोन गेदुलले वरुम वहु एल-कल-हाअमिमः
H3068 H6726 H1931 H3605

यहोवा सियोन में महान है। सारे मनुष्यों का वही महान राजा है।

3
יְהוָה יִרְגֵּנוּ שְׁמֹרָה גְּדוֹלָה וְנוֹרָא קְדוֹשׁ הוּא:
यहोवा ईरुगेनु शेमुराहे गेदुलले वनुआ कदुश हावुः
H3034 H8034 H3372 H6918 H1931

सभी मनुष्य तेरे नाम का गुण गाएँ। परमेश्वर का नाम भय विस्मय है। परमेश्वर पवित्र है।

4
וְעָזַר אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ נְיָא מְשַׁפֵּט אֱתָהּ וְצִדְקָהּ
और-शक्ति एलुहेनु मेलके न्याय मशफुट एतुहा वजुदकहा
H5797 H4428 H4941 H0157 H4339 H4941 H6666
וְיָבִיעֶקֶב אֵתָהּ עֲשִׂיתָ:
वे-याकोब एतुहा तुने-किया
H3290

शक्तिशाली राजा को न्याय भाता है। परमेश्वर तुने ही नेकी बनाया है। तू ही याकूब (इसाएल) के लिये खरापन और नेकी लाया।

5
וְיִרְגֵּנוּ אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ וְהַשְׁתַּחֲוֹה לְהַרְגֵּנוּ קְדוֹשׁ הוּא:
हमारे-एलोहीम एलुहेनु एलुहेनु एतुहा एलुहेनु वहुशतुहवुलले हेरुगेनु कदुश हावुः
H3068 H0430 H7812 H1916 H7272 H6918 H1931

यहोवा हमारे परमेश्वर का गुणगान करो, और उसके पवित्र चरण चौकी की आराधना करो।

6
מִשָּׁה וְאַהֲרֹן בְּכַהֲנָיו וְשָׁמוּאֵל וּבְקָרְאֵי שְׁמוֹ קְרָאִים אֵל-יְהוָה
मूसा एवुहोरुन बेकहनुवुन वशमुएल वबुकुरआवु शेमुओ कुरआवुम एल-यहोवा
H4872 H0175 H3548 H8050 H7121 H8034 H7121 H0413 H3068
וְהוּא יַעֲנֵם יְהוָה
वहु उतुतर-देता-था-उन्हें एतुहा
H1931

मूसा और हारुन परमेश्वर के याजक थे। शमुएल परमेश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करने वाला था। उन्होंने यहोवा से विनती की और यहोवा ने उनको उसका उत्तर दिया।

7
בְּעָמֹד עָנָן וְדַבָּר אֲלֵיהֶם שָׁמְרוּ עֲדָתוֹ וְחָק וְתוֹרָה לָמוֹ:
बेअमोद एननुन वदुबुर अलुहेहम शेमरुवु एदतुओ वहुक वतुओरा लामुः
H5982 H6051 H1696 H0413 H8104 H2706 H5414

परमेश्वर ने ऊँचे उठे बादल में से बातें कीं। उन्होंने उसके आदेशों को माना। परमेश्वर ने उनको व्यवस्था का विधान दिया।

8
וְנָקָם אֱלֹהֵינוּ אֵת
और-बदला-लेने-वाला हमारे-एलोहीम यहोवा
H5358 H1992 H1961 H5375 H0410
עָלֵינוּ עָלֵינוּ
उत्तर-दिया-उन्हें तू हमारे-एलोहीम यहोवा
H5949 H3068

हमारे परमेश्वर यहोवा, तूने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। तूने उन्हें यह दर्शाया कि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और तू लोगों को उनके बुरे कर्मों के लिये दण्ड देता है।

9
וְיָהוָה יִרְמָזוּ אֱלֹהֵינוּ
यहोवा पवित्र क्योंकि- उसकी-पवित्रता-के के-लिए-पहाड़ और-दण्डवत-करो हमारे-एलोहीम यहोवा ऊँचा-करो
H3068 H6918 H6944 H2022 H7812 H0430 H3068

אֱלֹהֵינוּ
हमारे-एलोहीम
H0430

हमारे परमेश्वर यहोवा के गुण गाओ। उसके पवित्र पर्वत की ओर झुककर उसकी उपासना करो। हमारा परमेश्वर यहोवा सचमुच पवित्र है।